

VACANCY

Applications are invited for the post of JRF in DST funded collaborative project of AIIMS-Delhi & IIT-Delhi

Title: Identification of network pathways for drug targeting in Multiple Myeloma from NGS data using Deep Learning

Project Code: D – 538

Duration of project: 2019 – 2022

Emoluments: As per DST guidelines

Name of the post	No. of posts	Eligibility criteria
JRF	ONE	B.Tech/ BE/ ME/ MTech in ECE/CSE with good programming skills in machine learning/deep learning; Proficiency in coding in Pytorch/Matlab is required; Applicant should have done basic mathematics courses like linear algebra, probability, programming etc. in their degree program with good grades in these courses. Strong inclination to understand biological concepts is necessary for this research work as this project is about machine learning application to biological systems. UGC NET qualification will be desirable

Note:

1. Only short listed candidates will be called for interview. No TA/DA will be provided.
2. Send your CV with supporting documents in a single pdf file by email to laboncoresearch@gmail.com
3. Please mention clearly the Project Code & Post Name (Application for D538_JRF) in subject line of email.
4. A good candidate may get an opportunity to join as a PhD student with AIIMS and/or IIT-Delhi.
5. Last date of receiving the application is February 28, 2019 till 5 pm.


डॉ. रीतु गुप्ता/Dr. RITU GUPTA
प्रभारी आचार्य / Professor & Office in Charge
प्रयोगशाला अष्टद्विज्ञान / Laboratory Oncology
डा. भी. रा. अ. सं. रो. बंगला अस्पताल/Dr. B. R. A., IICH
अ. मा. आ. सं., नई दिल्ली/NEW DELHI-110029